



नफिट, हटिया ने जीता वेस्ट पेपर अवॉर्ड | झारखंड | 14 Oct 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित 12वें सामग्री प्रसंस्करण और लक्षण वर्णन पर सम्मेलन, 2021 में 'नफिट' हटिया (झारखण्ड) की टीम ने अपने शोध के लिये वेस्ट पेपर अवॉर्ड जीता है।

प्रमुख बटु

- सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया था, जिसमें देश-वदेश के कुल 239 शोधकर्ताओं ने मटेरियल साइंस के क्षेत्र में अपना शोध प्रस्तुत किया था।
- सम्मेलन में शोध के लिये वेस्ट पेपर अवॉर्ड विजेता, नफिट, हटिया की टीम में प्रो. राजकुमार ओहदार के मार्गदर्शन में कुमार सत्यम, दविय प्रकाश श्रीवास्तव और सौरभ कुमार शामिल थे।
- सम्मेलन में भारत, इथोपिया, इराक, कजाकस्तान, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों के शोधार्थियों ने भाग लिया।
- चार दिवसीय इस सम्मेलन में देश-वदेश के 11 प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपना शोध संबंधित व्याख्यान दिया था।

नीतिआयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का रामगढ़ सबसे पीछे | झारखंड | 14 Oct 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीतिआयोग द्वारा जुलाई-अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के लातेहार एवं रामगढ़ को क्रमशः 111वाँ एवं 112वाँ स्थान मिला है, जबकि ओडिशा के गजपति ज़िले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

■ प्रमुख बटु

- गौरतलब है कि इससे पूर्व की डेल्टा रैंकिंग में लातेहार 13वें एवं रामगढ़ 22वें स्थान पर थे, कति विकास योजनाओं की धीमी गति के कारण ये पछिड़ गए हैं।
- नीतिआयोग द्वारा प्रारंभ की गई डेल्टा रैंकिंग देश के आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों में वृद्धिशील प्रगति दर्शाती है।
- उल्लेखनीय है कि 2018 में प्रारंभ किये गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य इन ज़िलों में तेज़ी से बदलाव लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति की है।